

APPLICATION FORM FOR ASSISTANCE  
सहायता हेतु आवेदन प्रारूप

(Healthcare)  
(स्वास्थ्य देखभाल)

APPLICATION No.:  
आवेदन संख्या:

B/0524/0497

APPLICATION DATE:  
आवेदन तिथि:

23/05/2024

NAME of APPLICANT:  
आवेदक का नाम:

Shabimunnisa

AGE-YEARS: वार्षि-वर्ष  
SEX: लिंग

55 yrs F

FATHER'S/SPOUSE'S NAME:  
पिता/स्पौज का नाम:

W/o H.B. Mohammed

PRESENT RESIDENCE ADDRESS: वर्तमान अवासानीय पता:

Indiranagar, Huliyal Hobli,  
Chikkamayyapetahalli, Tumkur, Karnataka

PERMANENT RESIDENCE ADDRESS: स्थाई अवासानीय पता:

- Same as above -



Pre-op Post-op  
0497 Shabimunnisa

OCCUPATION:  
बदलाव

Cooker

MARRIED (विवाहित) / UNMARRIED (विवाहित)

TOTAL ANNUAL INCOME:  
कुल वार्षिक आय

₹4,000/-

(Attach Proof of Income)  
(आय का साक्ष लेखन)

A/c No. संख्या खाता संख्या

ARE YOU AN INCOME TAX ASSESSEE (Tick whichever is applicable):  
अग्र आप अयात कर रहे हैं (जो मात्र ही उस पर सही का लिखने लगते)

Yes / No  
हाँ / नहीं

FAMILY DETAILS परिवार विवरण

Sr. No. क्रम संख्या	Name of Family Member परिवार के सदस्यों का नाम	Age (Years) उम्र (वर्ष)	Gender लिंग	Relation with Applicant आवेदक के साथ सम्बन्ध
1.	Mohammed H.B.	60 yrs	Male	Husband

BASIS for REQUESTING ASSISTANCE (Tick whichever is applicable)  
सहायता के लिए विभिन्न आधार:

BPL Card (Attach Card Copy) परिवही रेता के नीचे इमार पत्र (इमार पत्र को आवास प्रति संलग्न करें)	EWS Certificate (Attach Certificate Copy) अवास जाप सर्वे इमार पत्र (प्रस्तुत एवं को आवास प्रति संलग्न करें)	Ration Card (Attach Copy) उपभोक्ता कार्ड (प्रस्तुत एवं को आवास प्रति संलग्न करें)	Any Other Basis/Proof अन्य कोई साक्ष

"PURPOSE" for REQUESTING ASSISTANCE:

सहायता हेतु किसे गए वित्ती का उद्देश्य:

Sr. No. क्रम संख्या	Medical Reports/Prescriptions Attached लाप्ताएँ/ट्रॉक्टर से जारी की गई आवेदन सूची संलग्न
1.	Diagnosis RF - Cataract LE - Cataract
2.	Surgery RF - Cataract + PCV

ASSISTANCE BEING AVAILED for SAME "PURPOSE" from OTHER SOURCES  
इस उद्देश्य के लिए कोई अन्य सहायता किसी अन्य स्रोत से लिया गया है?

Sr. No. क्रम संख्या	NAME of OTHER SOURCE अन्य स्रोत का नाम	AMOUNT of ASSISTANCE BEING AVAILED लो. रु. सहायता परी
1.	DBCS	2,000/-

**DECLARATION by APPLICANT:** आवेदक द्वारा घोषणा की:

- I hereby confirm that all details in this Form are True to the best of my knowledge. Any false statement will render my Application & ongoing assistance, if any, liable for rejection/cancellation.
  - I solemnly confirm that assistance, if received from Koshika Foundation, will be used only for the "purpose", as stated in this Form, for which such assistance was requested by me.
  - I hereby confirm that I have not & will not in future, avail of reimbursement, in part or in full, from any other source/employer/insurance company, of the amount for which this assistance is requested.

1) मैं सोचता हूँ कि इस प्रकरण में लिये लिये सभी विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। यदि कोई विवरण यह काम का उपयोग कराता है तो ये महाकाश नियम के अनुसार है।

2) मेरे द्वारा दी गयी समाप्ति का "जोखिया कार्ड-टार्ड", ऐसी जा रही है, जिसके उपर्योग इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये किया जायेगा, ये इस प्रकार में यह रहा है।

3) मैं पूर्ण रूप से यह घोषणा करता हूँ कि यह घोषणा को यह है, कम एवं कम यह विवरण जिसके अनुसार योग्यता दीया जाना चाहिये से अ ले लिया है और यह भी भविष्य में भी।

**AGREEMENT by APPLICANT (आवेदक द्वारा सहमति)**

- 1) By affixing my signature or thumb impression on this Form, I (Applicant) hereby agree & authorise Koshika Foundation and it's Trustees to use/publish/get-up/produce my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, through any medium, including but not limited to verbal, print, electronic, for soliciting donations for Koshika Foundation and/or disseminating information about it's activities/achievements. Such use of my photo & details can be made by Koshika Foundation before or after my treatment or fulfillment of the "purpose" for which assistance is being requested.

2) I (Applicant) further agree that any such use of my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, will not automatically entitle me for receiving or continuing the said assistance. The decision for granting and/or continuing the assistance will rest solely with the Trustees of Koshika Foundation, and their decision in this regard will be final and acceptable to me.

1.) इस प्रवर्तन का अपने जानकारी वालों को द्वारा नगाह कर, मैं (आवेदक) अपनी जहांगियत की पुष्टि करता हूँ एवं "कोशिका चालांडेसन और उसके नामांदेश" को अधिकृत करता हूँ कि मेरा जन्म, पता, जानी और जीवनकाल इस प्रवर्तन में प्रतिष्ठित है, उसे "कोशिका" प्रवर्तन, नाम, जानकारी द्वारा उद्देश्य से जुड़ी गतिविधियों और उत्तराधिकारों के लिये किसी भी प्रकार मान्यता दें उपलब्ध करने के लिए अधिकृत है। मेरे उपर्युक्त विवरण द्वारा जानकारी को प्रदान की जाए, मेरे जाने के लिए "कोशिका चालांडेसन" व नामांदे अधिकृत है।

2.) मैं (आवेदक) इस बात सहमत हूँ कि मेरा नाम, पता, जानी और विवरण जो कि सहायता के उद्देश्य से प्रयोगित हैं, मुझे स्वतः सहायता का हकदार नहीं बनाता। इस सम्बन्ध में "कोशिका" प्रवर्तन उसके नामांदेश का नियंत्रण अधिकृत और अधिकारी होता;

APPLICANT'S SIGNATURE OR LEFT THUMB IMPRESSION

www.ijerph.com



AGREEMENT by HOSPITAL (OPTIONAL FORM)

By affixing hereunder, signature of our Authorised Signatory for recommending this case/patient for financial assistance from Koshika Foundation, we  
hereby affirm & accept following:

- (Hospital) hereby affirm & accept following:

  - 1) that we neither are presently nor will in future avail of financial assistance from another NGO or any other source, for the same patient/case, as we are requesting to get from Koshika Foundation, to the extent that such assistance is granted by Koshika Foundation. If the requested assistance is not granted by Koshika Foundation, in part or in full, then the Hospital reserves it's right to make up the shortfall from another NGO or any other source. This confirmation essentially states that the Hospital will not avail any duplicate assistance for the same patient/case from any other NGO or any other source.
  - 2) The assistance from Koshika Foundation is only financial in nature. The choice of the treatment/procedure advised/conducted by the Hospital on the patient, is based on the arrangement between the patient & the Hospital, and is in no way influenced by Koshika Foundation. Hence, the Hospital will assume sole & complete responsibility of the treatment & it's outcome & safety of the patient, and Koshika Foundation will have no role or responsibility in the matter.

इसका अधिकारी इसकी की ओर से यात्राएँ/रुटों को "कोरिन्ग पार्टनरेशन" में वित्तीय सहायता हेतु उपलब्ध करता है, जिसे हम (इन्डिया) विमान प्रवास से सम्बन्धित खालीकरण करते हैं।

- 1) यह कि न ही कठोरता और न ही गणित में विशिष्ट साकारा किसी गणकारी संस्थान ये किसी अन्य स्थान से उत्तम रैंग प्राप्ति करने में लगे था तो है, जिसे कि इसने "कांशिका पाठ्यनिदेश" में सिक्षार्थीवित्ती उपर के समाप्त में "कांशिका पाठ्यनिदेश" द्वारा प्रदर्शित है। यह "कांशिका पाठ्यनिदेश" द्वारा साकारा विभिन्न अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता है तो अस्पष्टता किसी अन्य गणकारी संस्था या किसी अन्य संस्थान में साकारा देने का अधिकार सुनिश्चित रखता है। इस पृष्ठ में सब काढ़ा जाता है कि अस्पष्टता द्वितीय चरण उपर किसी प्राप्ति के बारे में बोलते हैं।

2. "कोशिका काटनेवाला" में ली गई साहायता कोशल वित्तीय इकूल थी। ऐसी पर इम्प्रेस द्वारा भी नई सामाजिक या किसी गंभीर उपचार/अधिकार का सुनाव देने वाले एवं इम्प्रेस के बीच आवाय है और "कोशिका काटनेवाला" द्वारा किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इम्प्रेस इम्प्रेस में ऐसी के इतना सुनाव और आने वाले भी सारी विषयोंहाँ ऐसी एवं इम्प्रेस की ओर से ऐसी "कोशिका" की ओर स्थिति या किसीसे इस घटनाएँ में नहीं होती।

**RECOMMENDED FOR ACCEPTANCE**

Mr. Lakshminarayana

Date of Surgery अंगीरण की तारीख	<i>B/S</i> <b>Dr. Laxmi Dorennavar</b> <b>MBBS, MS, FPRS, MICO</b> (Name of Surgeon) <b>Consultant - Phaco &amp; Refractive</b> KMC No. 00244	Mr. Lakshmi Dorennavar Manager Outreach Institute for Diabetes & Eye Care # 15/M, Thimmapura Road, Miller Tank Bed Area (Name, Designation & Address of Authorised Signatory on Behalf of Hospital) नम. १५ मिलर टैक्सन बेड अस्पिक्युले
------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KMC No. B0244 YOSHIDA FOUNDATION

सामाजिक तथा धार्मिक

SIGNATURE of TRUSTEE 1

SIGNATURE of TRUSTEE 2  
न्यायी हस्ताक्षर २

*Safary*

eric